



VRL/SEC/EXCHANGE

01.11.2021

National Stock Exchange of India Ltd. 5 th Floor, Exchange Plaza Bandra (E), Mumbai- 400 051 Script Code: VENUSREM	BSE Limited 25 th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai Script Code: 526953
---	---

Sub.: Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith newspaper publication of Unaudited financial results as on 30.09.2021.

Thanking you.

**Yours faithfully,
for VENUS REMEDIES LIMITED**


Neha

(Company Secretary)

VENUS REMEDIES LIMITED

Corporate Office :

51-52, Industrial Area, Phase- I, Panchkula (Hry.) 134113, India

Regd. Office :

SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC, Manimajra,
Chandigarh (U.T.) 160101, India

Website : www.venusremedies.com

www.vmrindia.com

email : info@venusremedies.com

CIN No. : L24232CH1989PLC009705

Unit-I :

51-52, Industrial Area, Phase-I, Panchkula (Hry.) 134113, India
Tel. : +91-172-3933094, 3933090, 2565577, Fax : +91-172-2565577

Unit-II :

Hill Top Industrial Estate, Jharmajri EPIP, Phase-I, (Extn.),
Bhatoli Kalan, Baddi (H.P.) 173205, India

Tel. : +91-1795-302100, 302101, 302107, Fax : +91-1795-271272

Unit-V :

VENUS PHARMA GmbH
AM Bahnhof 1-3, D-59368, Werne, Germany

हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित

पटाखे फोड़ने वालों पर भी कार्रवाई जिन शहरों में मिलेगी छूट, वहां की सूचियां प्रदूषण बोर्ड जारी करेगा
प्रदूषण बोर्ड ही जारी करेगा दो सप्ताह के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
 चंडीगढ़, 31 अक्टूबर (जनसत्ता)।

हरियाणा में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि दीपावली के अलावा गुरुपूर्व, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस और नए साल पर भी अक्सर लोग आतिशबाजी करते हैं। कोरोना के बीच आतिशबाजी के वायुप्रदूषण से सड़क के मौसम में बुजुर्ग, बच्चों व सह-रूग्णता वाले लोगों को समस्या हो सकती है। इसके साथ-साथ यह कोरोना के मरीजों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है।

सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि एनसीआर के सभी 14 जिलों भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत और रेवाड़ी में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्देश राज्य के उन सभी शहरों/कस्बों पर भी लागू होंगे जहां पिछले साल नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता का औसत खराब और उससे ऊपर की श्रेणी का था। उन्होंने कहा कि जिन शहरों/कस्बों में वायु गुणवत्ता मध्यम या कम है, वहां केवल हरे पटाखे बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा इन शहरों/कस्बों में दीपावली व अन्य त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने का समय केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक होगा। छठ पूजा पर पटाखे फोड़ने का समय सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा। जबकि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का समय आधी रात के आसपास 11.55 से सुबह 12:30 बजे रहेगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपरोक्त शहरों और कस्बों की सूची अलग से जारी करेगा। इसे अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा और जनता की जानकारी के लिए इसका प्रचार भी करेगा। जिन क्षेत्रों में पटाखों के उपयोग और फोड़ने की अनुमति है वहां सामुदायिक फायर क्रैकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन विशेष क्षेत्रों की संबंधित अधिकारियों द्वारा पहले से पहचान कर ली जाए तथा इसकी जानकारी लोगों तक प्रचारित की जाए। उन्होंने कहा कि शादियों और अन्य अवसरों पर केवल हरे पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 दिनों के लिए शहरों में अल्पकालिक निगरानी करेगा। प्रदूषण बोर्ड पटाखों को फोड़ने के संबंध में सीपीसीबी द्वारा प्रस्तावित वायु गुणवत्ता मानदंड मूल्यां (एएक्यूसीवीएच) के खिलाफ नियामक मानकों के अलावा, एल्यूमीनियम, बेरियम, आयरन की अल्पकालिक निगरानी करेगा।

ई-कामर्स कंपनियां भी नहीं कर सकेंगी पटाखे सप्लाई

हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारियों के माध्यम से ही होगी। पिलफार्ट, अमेज़न आदि सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी। इस संबंध में संबंधित कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जिला उपायुक्त करेंगे जांच दल का गठन

सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी जिला उपायुक्त उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित करेंगे और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कानून/नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्देश उपायुक्तों द्वारा अपने-अपने जिलों में लागू किए जाएंगे और किसी भी तरह का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

लोन उत्सव
ऑफर सीमित अवधि के लिए
प्रोसेसिंग शुल्क पर 100% छूट
आकर्षक! 6.40% इतना कम यूनियन होम
7.15% यूनियन माइल्स
 9619333333 पर मित्र कॉल दे या 56161 पर +800-66-एलएचए-एलएचए पेजें
यूनियन बैंक Union Bank of India
 • हेल्पलाइन- 1800 208 2244 / 1800 222244 • +91 80018 17110 (एनएचएन) • www.unionbankofindia.co.in
 फॉलो करें: @unionbankofindia @UnionBankTwitter UnionBankofIndia UnionBankofIndia UnionBankofIndia

क्लब के बाहर चली गोली से एक घायल

चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में एक क्लब के बाहर कुछ युवकों ने एक अन्य युवक पर गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची जिन्होंने घायल युवक को जीएमएसएच-32 में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक घायल युवक की पहचान अंबाला में गांव समाल के रहने वाले सिमरन के रूप में हुई जिसकी टांग में गोली लगी है। यह वारदात सेक्टर-26 में क्लब मॉब के बाहर शनिवार देर रात 12.00 बजे की है। पुलिस को दिए बयान में सिमरन ने बताया कि वह अपनी गाड़ी के पास खड़ी दूसरी कार के

टायर पर पैर रखकर जूते के तसे बांध रहा था। इस पर गुस्साए कार चालक युवक ने उससे बहस शुरू कर दी और फिर सिमरन पर गोलियां दागकर मौके से फरार हो गया जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। जहां यह वारदात हुई उससे कुछ मीटर की ही दूरी पर सेक्टर-26 का थाना है। वारदात स्थल पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी। पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद कुछ युवकों को पकड़ा भी गया है। यह वारदात रजिशन या गुटबाजी के चलते हुई, इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है और उसका दावा है कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।

पीपीपी के बगैर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

प्रदेश में बढ़ेगी सभी वर्गों की पेंशन हरियाणा के 100 नए गांवों में शुरू होगी 24 घंटे बिजली आपूर्ति आज से एसडीएम व सीटीएम को रजिस्ट्री की पावर
 चंडीगढ़, 31 अक्टूबर (जनसत्ता)।

सोमवार को हरियाणा 55 साल का होने जा रहा है। इस बीच हरियाणा में कई उतार-चढ़ाव देखे। सोमवार से प्रदेश में कई नए नियम शुरू होने जा रहे हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी। इसके बगैर किसी को भी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार पहचान पत्र बनाने की ऐसी योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। कई मामलों में सरकार इसे पहले ही लागू कर

चुकी है। कॉलेज एडमिशन में पीपीपी को जोड़ने का तत्काल लाभ मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ अब स्मार्टकार्ड से भी मिलेगा। स्मार्टकार्ड को पीपीपी से जोड़ा जाएगा। शुरुआत में आयुष्मान भारत, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और पेंशन स्कीम को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में अब तक 65 लाख परिवारों ने खुद को परिवार पहचान पत्र पर पंजीकृत कर लिया है। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश में बुढ़ाया, विधवा तथा अन्य वर्गों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में हर साल हरियाणा दिवस पर पेंशन बढ़ाई जाती है। इस समय ऐलानबाद उपचुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी औपचारिक शुरुआत अगले सप्ताह करेंगे जबकि इसे एक नवंबर से ही लागू माना जाएगा।

पहले प्रदेश में तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के पास ही रजिस्ट्री की पावर थी। लेकिन सोमवार से प्रदेश में संपत्ति आदि के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए राज्य के सभी उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट को उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किया जाएगा। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में कार्य करते रहेंगे। ग्राम दर्शन की तरह शहरी दर्शन शुरू हरियाणा सरकार ने हालही में गांवों में होने वाले विकास कार्यों तथा गांवों के संबंध में पूरी जानकारी के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। गांवों में किसी भी तरह का विकास कार्य ग्राम दर्शन के तहत होता है। अब सरकार हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश में शहरी दर्शन योजना शुरू करने की तैयारी में है।

नुककड़ नाटक से स्तन कैंसर के प्रति जागरूक किया गुरुग्राम स्थित एसजीटी विवि की पहल चंडीगढ़, 31 अक्टूबर (जनसत्ता)।

विश्व स्तन कैंसर माह-2021 के अवसर पर एसजीटी विश्वविद्यालय द्वारा धनकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर और एक नुककड़ नाटक आयोजित किया गया। शिविर सामुदायिक चिकित्सा विभाग, एसजीटी विश्वविद्यालय के प्रसूति व स्त्री रोग विभाग के सहयोग से लगाया गया जिसमें स्तन कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। इसकी थीम 'राइजिंग अवेयरनेस एंड नो मोर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर' रखी गई। जागरूकता अभियान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया जिसका उद्देश्य अधिकाधिक जागरूक करने का था। एमएससी नर्सिंग की छात्रा प्रीति जैसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और छात्राओं ने भी रक्तचाप, शरीर का तापमान आदि की जांच करवाई। प्रो. जगबीर मलिक, प्रोफेसर सह नोडल अधिकारी, एचओडी कम्युनिटी मेडिसिन, असीम शिवप्पा, सीनियर को-ऑर्डिनेटर, सेंट स्टीफंस अस्पताल से सामुदायिक स्वास्थ्य एवं विकास विभाग और श्रीमती सीमा शिवप्पा मौजूद रहे।

राष्ट्र सुरक्षा को प्रतिबद्ध है पश्चिमी कमान: आरपी सिंह

चंडीगढ़, 31 अक्टूबर (जनसत्ता)। सेना की पश्चिमी कमान में कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने कहा कि पश्चिमी कमान राष्ट्र व सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सीमाओं पर सेना के जवानों को अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिससे वे घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं बल्कि सीमा सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने कोरोना काल में पश्चिमी कमान द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व चंडीगढ़ में सेना ने 100-100 बैड के अस्पताल स्थापित किए तो पंजाब में आक्सीजन प्लांटों को भी शुरू करने में अपना योगदान दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह रविवार को पश्चिमी कमान की ओर से आयोजित विदाई समारोह को संबोधित कर रहे थे। पश्चिमी कमान की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल

आरपी सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। सेना अफसरों ने उनके सम्मान में जीप खिंची तो रथ-बुग्गी की सवारी के दौरान सेना जवानों ने उन पर पुष्प वर्षा की। इसके बाद उन्होंने शहीद स्मारक पर पश्चिमी कमान के शहीदों की श्रद्धांजलि दी। हेलीपैड पर आयोजित विदाई समारोह में सेना के जवानों ने बैंड की सुरीली धुनों के बीच उन्हें सलामी दी। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह को राष्ट्र के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा

40 साल का रहा सफल करियर
 लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह का सेना में 40 साल का सफल करियर रहा है। आरपी सिंह ने 1982 में मैकेनाइज्ड इंफैंट्री कमीशन प्राप्त किया था। अपने चार दशकों के सफल करिअर में उन्होंने भारतीय सेना को सशक्त करने के साथ सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अंगोला (आंगोला) में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा का भी गौरव हासिल किया। आरपी सिंह डिफेंस सर्विस स्टाफ कोर्स, हायर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।

मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने कहा कि सीमाओं पर सेना पूरी तरह मुस्तैद है। ड्रोन के जरिये भी दुश्मनों पर पूरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के हमलों का सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।

इंदिरा गांधी ने महिलाओं को नई दिशा दी: सुधा भारद्वाज

चंडीगढ़, 31 अक्टूबर (जनसत्ता)। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस देश की महिलाओं को जहां नई दिशा प्रदान की वहीं वह देश हित में कई बड़े-बड़े फैसले लेकर 'आयरन लेडी' कहलाईं। सुधा भारद्वाज रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी के शहीदी दिवस के अवसर पर स्थानीय गुर्जर भवन में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। सुधा भारद्वाज ने खुद रक्तदान करके शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि उनके खून का एक-एक कतरा इस

देश के काम आएगा। आज इस देश के वर्तमान हालातों में इंदिरा गांधी की सोच को संनियता गांधी व प्रियंका गांधी आगे बढ़ा रही हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा के निर्देशानुसार हरियाणा में आज प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

वाह दिल और मैडल दोनों जीते

घोड़ा प्रदर्शनी में छाया जर्मन नस्ल का अब्राजो

चंडीगढ़, 31 अक्टूबर (जनसत्ता)। शौक की कोई कीमत नहीं होती और शौक घुड़सवारी का हो तो क्या कहने! न्यू चंडीगढ़ में तीन दिन चले हॉर्स शो में एक से बढ़कर एक घोड़ा देखने को मिला। देशभर के कई राज्यों से आए घोड़ों ने इस शो में अपनी रफ्तार और छलांग से लोगों को अपना मुरीद बना लिया। अलबत्ता इस पूरे हॉर्स शो में पीया मोदी का घोड़ा अब्राजो छाया रहा। जर्मन हनोवेरियन ब्रीड के घोड़े अब्राजो ने मैडलों के साथ-साथ सबका दिल भी जीत लिया। अब्राजो ने ओपन टॉप स्कोर कैंश प्राइज़ इवेंट और ओपन ऑपनिंग कैंश प्राइज़ इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किए। अब्राजो के राइडर अभिषेक चौपड़ा में शानदार घुड़सवारी का नमूना पेश किया। अब्राजो की खासियतों को जानने के लिए



लोग उत्सुक दिखे। लगभग 6 फुट ऊंचा यह घोड़ा बाकमाल है। इस घोड़े पर सवार अभिषेक चौपड़ा ने इसकी खुराक और खासियत बताई, जिसे जानकर कोई भी दंग रह जाए। अब्राजो जर्मन ब्रीड के और भी घोड़े अस्तबल में शामिल किए जाएंगे। उनका कहना है कि घुड़सवारी भविष्य का खेल है। भारत में घुड़सवारी का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा इसमें अपना करियर बना सकते हैं।

इसका प्रिय भोजन है। एक सेब बुड़कते ही यह तरौताजा हो जाता है। इस घोड़े की खुराक का रोजाना का खर्च औसतन 4,000 रुपए है। इस घोड़े की कनसेरियां बड़ी आकर्षक हैं और एक आइट के साथ ही उन्हें बड़ी फुर्ती से गोलाई में घुमाता है। यह घोड़ा मोदी गुप की निदेशक पीया मोदी का है। पीया ने बताया कि उन्होंने मेरठ के पास 60 एकड़ में आधुनिक घुड़सवारी केंद्र बनाया है और उनके अस्तबल में फिलहाल देसी-विदेशी नस्ल के 20 घोड़े हैं। अब्राजो उनमें से एक बेहद फुर्तीला घोड़ा है। पीया का कहना है कि अभी जर्मन ब्रीड के और भी घोड़े अस्तबल में शामिल किए जाएंगे। उनका कहना है कि घुड़सवारी भविष्य का खेल है। भारत में घुड़सवारी का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा इसमें अपना करियर बना सकते हैं।

हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो को राष्ट्रीय सम्मेलन में तीसरा स्थान

चंडीगढ़: हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो की टीम ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दिल्ली में आयोजित 22वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो निदेशक सम्मेलन में तीसरा स्थान हासिल किया है। एनसीआरबी द्वारा आयोजित सम्मेलन नई दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित किया गया था जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।

क्र. सं.	विवरण	को सप्ताह तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (₹. लाखों में)				
		को समाप्त तिमाही		को समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2021 अर्नकेक्षित	30.09.2020 अर्नकेक्षित	30.09.2021 अर्नकेक्षित	30.09.2020 अर्नकेक्षित	
1	प्रचालनों से कुल आय	2025.60	1260.69	3323.71	3148.14	5481.24
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशेष या असाधारण मदों से पूर्व)	214.59	69.22	314.79	180.66	251.11
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष या असाधारण मदों के बाद)	214.59	145.16	314.79	164.89	485.53
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष या असाधारण मदों के बाद)	231.48	130.26	348.46	149.99	617.65
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके]	231.24	130.26	347.98	148.73	616.70
6	इंफ्लिटी शेयर पूंजी	133.67	123.42	133.67	123.42	123.42
7	आरक्षित और अधिशेष	-	-	-	-	3879.42
8	आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रति का) (वार्षिक नहीं)					
	मूल:	17.32	10.55	26.41	12.15	50.04
	तनुकृत:	17.32	10.55	26.41	12.15	50.04

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडइएलॉन (₹. लाखों में)				
		को समाप्त तिमाही		को समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2021 अर्नकेक्षित	30.09.2020 अर्नकेक्षित	30.09.2021 अर्नकेक्षित	30.09.2020 अर्नकेक्षित	
1	कारोबार	1926.43	1184.08	3294.91	2981.18	5146.23
2	कर से पूर्व लाभ	224.39	88.16	353.52	108.22	410.60
3	कर के बाद लाभ	241.28	73.26	387.18	93.32	542.72

वित्तीय परिणामों की टिप्पणियां:-
 उपरोक्त सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकृतीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल की गई 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अर्नकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप के सार की 30 अक्टूबर, 2021 को ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और 30 अक्टूबर, 2021 को आयोजित निदेशकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया है। संपूर्ण वित्तीय परिणाम बीएसई, एनएसई और कंपनी की वेबसाइट नामतः www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.venusremedies.com पर उपलब्ध है।

Go pain free by using Rset's 100% natural pain relief products!
 Defeat chronic pain with our long term healing solutions
#ResetYourPower
 shop now at www.r3set.life

वेनस रेमेडीज लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: एन.सी.ओ. 857, दूसरा तल, सी. नं. 10, एन.ए.सी. मनीमाजार, चंडीगढ़
 CIN: L24232CH1989PLC0009705
 ई-मेल: complianceofficer@venusremedies.com
 वेबसाइट: www.venusremedies.com www.facebook.com/venusremedies
 दिनांक: 30.10.2021 स्थान: पंचकुला

हिये एवं कृते निदेशक के बोर्ड कृते वेनस रेमेडीज लिमिटेड ह./- (पवन चौधरी) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक DIN: 00435503

Cement, steel industries should use green hydrogen for energy: Gadkari

PRESS TRUST OF INDIA
Nagpur, October 31

UNION MINISTER NITIN Gadkari on Sunday said it is now time that cement and steel industries start using green hydrogen as energy instead of coal for production.

He was speaking at the inauguration of various facilities of Manganese Ore India Ltd (MOIL) based in Nagpur.

"It is now time for using green hydrogen as energy in the cement and steel industry in place of coal. We should work on value addition by running metal industries, where mining products are using green hydrogen as energy. We will

have to protect the environment and increase our production at the same time," he said.

Gadkari, who is member of the Cabinet Committee on Divestment, emphasised on carrying out divestment on a large scale as envisaged by Prime Minister Narendra Modi.

He said it is not the job of the government to run a business.

"Big financial discipline is taking place through divestment. Those (PSUs) who are in profit and doing well should perform better and stressed on important performance audit which he said is more important than financial audit," he said.



Union minister Nitin Gadkari

Gadkari appreciated MOIL for the announcements it made for its employees in terms of wage revisions and other demands.

He asked MOIL to increase its annual production and reduce import of ore and make India 'atmanirbhar' (self-

reliant).

Mukund Chaudhary, CMD of MOIL, said that MOIL is consistently earning profits and paying handsome dividends to the shareholders major shareholder being the Government of India. Chaudhary informing about its plan to increase production capacity said it is targeting 2.5 million tonne (mt) 2025-26 and 3 mt by 2030.

Talked about the expansion plan, Chaudhary said that MOIL has signed an MoU for manganese ore production with Gujarat Mineral Development Corporation in Gujarat, wherein exploration has been started and 9.5 mt of ores has been approved.

India, UK to launch solar green grids initiative at COP26

PRESS TRUST OF INDIA
Glasgow, October 31

INDIA AND THE UK are set to enhance their International Solar Alliance (ISA) partnership with the launch of a new green grids initiative, connecting different parts of the world, at the United Nations (UN) COP26 climate summit in Glasgow.

The new Global Green Grids Initiative—One Sun One World One Grid (GGI-OSOWOG)—is an evolution of ISA's OSOWOG multilateral drive to foster inter-connected solar energy infrastructure at a global scale.

The new Green Grids Initiative, to be launched at COP26 on Tuesday, will mark a merging of flagship interconnection initia-

The initiative will mark merging of flagship interconnection initiatives from India and the UK as part of their bilateral cooperation

tives from India and the UK as part of their bilateral cooperation. "The Green Grids Initiative aims to start with a coalition of the willing, such as two countries that would mutually benefit from the transfer of solar electricity and in time, lower costs of solar around the world," said Ajay Mathur, director-general of ISA.

"It is a huge opportunity not

only for India and the UK, but for countries to come together to utilise the greatest source of energy — the sun. The sun is shining somewhere around the globe, even though it might have set someplace else, and the scale of GGI-OSOWOG will not only change clean energy access but could very well be the next biggest modern engineering marvel," he said. "The partnerships, initiatives and discussions that the ISA will be leading at COP26 will provide the necessary impetus for delivering these transitions. The ISA invites nations, institutions and stakeholders with aligned interests and investment appetite to partner and accelerate global solar-led energy transition."

Jewellers expect strong demand during Dhanteras

WITH THE INDIAN jewellery market already on a robust recovery path, jewellers are expecting strong Diwali sales during Dhanteras, as the festive mood remains high with a low possibility of a Covid third wave, and softer gold prices this season.

The industry expects the trends in 2021 will be able to reach the pre-Covid level sales of 2019 on the back of gold price hovering at ₹46,000-47,000 per 10 grams of 22-carat gold, nearly 5% lower than in 2020, and a jump in number of weddings, a senior official of an industry body said.

"Since the Navratri market is showing demand, it will continue on Dhanteras also. This year the festive mood is strong with the pandemic remaining under control, lower gold prices and strong wedding season. This year, October-November will account for 40% of yearly sales," All India Gems and Jewellery Domestic Council chairman Ashish Pethe said. **PTI**

Diageo aims to be top-performing consumer products co

GLOBAL SPIRITS MAJOR Diageo is embarking on a mission to be a top-performing consumer products company in India with sustained double-digit, profitable topline growth and it will rejig its portfolio as part of the exercise, according to a senior company official.

Having been on a "journey of holistic transformation" since completing United Spirits' acquisition in 2013, marked by moderate topline growth, Diageo India is now looking forward to the new phase, while creating an organisation of the future, and defining and executing an

ambitious role for the company in the society. "Our mission is to be a top-performing consumer products company in India, delivering sustained double-digit, profitable topline growth, and long term value to all our stakeholders," Diageo India MD & CEO Hina Nagarajan said. **PTI**

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th September 2021 (Rs. In Millions)

S. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED				
		QUARTER ENDED ON		HALF YEAR ENDED ON		YEAR ENDED
		30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited
1	Income from operations	2025.60	1260.69	3323.71	3148.14	5481.24
2	Net profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	214.59	69.22	314.79	180.66	251.11
3	Net profit for the period before Tax, (after Exceptional and Extraordinary Items)	214.59	145.16	314.79	164.89	485.53
4	Net profit for the period after Tax, (after Exceptional and Extraordinary Items)	231.48	130.26	348.46	149.99	617.65
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) & other comprehensive income (after Tax))	231.24	130.26	347.98	148.73	616.70
6	Equity Share Capital	133.67	123.42	133.67	123.42	123.42
7	Reserves & Surplus	-	-	-	-	3879.42
8	Earnings Per share (of Rs. 10 each) (Not annualized)					
	Basic:	17.32	10.55	26.41	12.15	50.04
	Diluted:	17.32	10.55	26.41	12.15	50.04

(Rs. In Millions)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE				
		QUARTER ENDED ON		HALF YEAR ENDED ON		YEAR ENDED
		30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited
1	Turnover	1926.43	1184.08	3294.91	2981.18	5146.23
2	Profit before tax	224.39	88.16	353.52	108.22	410.60
3	Profit after tax	241.28	73.26	387.18	93.32	542.72

Note:-

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th September 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 have been reviewed by the Audit Committee Meeting dated 30th October 2021 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th October 2021. The full format financial results are available at BSE, NSE & Company's website namely, www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.venusremedies.com

Go pain-free by using Reset's 100% natural pain relief products!

Defeat chronic pain with our long term healing solutions

#ResetYourPower

shop now at www.r3set.life

VENUS REMEDIES LIMITED
 Regd. Office: S.C.O 857, 2nd Floor, C.No. 10, N.A.C. Marimajara, Chandigarh
 CIN - L24232CH1989PLC0009705
 E-mail: complianceofficer@venusremedies.com
 Website: www.venusremedies.com | www.facebook.com/venusremedies | www.instagram.com/venusremedies
 Date : 30.10.2021
 Place : Panchkula

For and on behalf of Board of Directors
 For VENUS REMEDIES LIMITED
 Sd /
 (Pawan Chaudhary)
 Chairman & Managing Director
 DIN: 00435503

Heartiest Greetings to all on the occasion of Haryana Day

Government of Haryana

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

परिवार पहचान पत्र वितरण समारोह
 दिनांक : 4 अक्टूबर 2020
 स्थान : वीरबन्सूरी, सी एच नगर, अतिथिगृह, पंचकुला

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
 श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

माधर्शिता, विकास व हर्ष
5+2
 जन सेवा के सात वर्ष

Information, Public Relations & Languages Department, Haryana
www.prharyana.gov.in | @DiprHaryana



Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th September 2021 (Rs. In Millions)

S. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED				
		QUARTER ENDED ON		HALF YEAR ENDED ON		YEAR ENDED
		30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited
1	Income from operations	2025.60	1260.69	3323.71	3148.14	5481.24
2	Net profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	214.59	69.22	314.79	180.66	251.11
3	Net profit for the period before Tax, (after Exceptional and Extraordinary Items)	214.59	145.16	314.79	164.89	485.53
4	Net profit for the period after Tax, (after Exceptional and Extraordinary Items)	231.48	130.26	348.46	149.99	617.65
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) & other comprehensive income (after Tax))	231.24	130.26	347.98	148.73	616.70
6	Equity Share Capital	133.67	123.42	133.67	123.42	123.42
7	Reserves & Surplus	-	-	-	-	3879.42
8	Earnings Per share (of Rs. 10 each) (Not annualized)					
	Basic:	17.32	10.55	26.41	12.15	50.04
	Diluted:	17.32	10.55	26.41	12.15	50.04

(Rs. In Millions)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE				
		QUARTER ENDED ON		HALF YEAR ENDED ON		YEAR ENDED
		30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited
1	Turnover	1926.43	1184.08	3294.91	2981.18	5146.23
2	Profit before tax	224.39	88.16	353.52	108.22	410.60
3	Profit after tax	241.28	73.26	387.18	93.32	542.72

Note:-

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th September 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 have been reviewed by the Audit Committee Meeting dated 30th October 2021 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th October 2021. The full format financial results are available at BSE, NSE & Company's website namely, www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.venusremedies.com

Go pain-free by using
Reset's 100% natural
pain relief products!

Defeat chronic pain with our long term
healing solutions

#ResetYourPower



shop now at www.r3set.life



R3SET
RELIEF • REVIVE • RESTORE

VENUS REMEDIES LIMITED

Regd. Office: S.C.O 857, 2nd Floor, C.No. 10, N.A.C. Manimajara, Chandigarh
CIN - L24232CH1989PLC0009705
E-mail: complianceofficer@venusremedies.com
Website: www.venusremedies.com www.facebook.com/venusremedies

Date : 30.10.2021
Place : Panchkula

For and on behalf of Board of Directors
For VENUS REMEDIES LIMITED

Sd/
(Pawan Chaudhary)
Chairman & Managing Director
DIN: 00435503